



सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

6 अग्रहायण, 1940 (श०)

संख्या- 1063 राँची, मंगलवार, 27 नवम्बर, 2018 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

संकल्प

20 नवम्बर, 2018

संख्या-5/आरोप-1-99/2016 का.-2762 (HRMS)-- श्रीमती कंचन कुमारी भुदोलिया, (चतुर्थ बैच) झा०प्र०से०, के प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, गोड्डा के पदस्थापन अवधि से संबंधित दो प्रपत्र-‘क’ में आरोप गठित कर उपलब्ध कराया गया।

प्रथम आरोप प्रपत्र-‘क’ में आरोप उपायुक्त, गोड्डा के पत्रांक-471/मनरेगा, दिनांक 6 जून, 2016 द्वारा उपलब्ध कराया गया, जिसमें इनके विरुद्ध वित्तीय वर्ष 2015-16 में राज्य मानव दिवस सृजन में सबसे खराब प्रदर्शन करने संबंधी आरोप प्रतिवेदित किये गये तथा दूसरा आरोप प्रपत्र-‘क’ उपायुक्त, गोड्डा के पत्रांक-656, दिनांक 20 अगस्त, 2016 द्वारा उपलब्ध कराया गया, जिसमें इनके विरुद्ध डोभा निर्माण में अनियमितता/शिथिलता/लापरवाही बरतने संबंधी आरोप प्रतिवेदित किये गये।

उक्त दोनों प्रपत्र-‘क’ में गठित आरोपों पर विभागीय पत्रांक-7466, दिनांक 29 अगस्त, 2016 एवं पत्रांक-8518, दिनांक 30 सितम्बर, 2016 द्वारा इनसे स्पष्टीकरण की माँग की गयी, जिसके अनुपालन में इन्होंने पत्रांक-8, दिनांक 6 अक्टूबर, 2016 एवं पत्र, दिनांक 8 अक्टूबर, 2016 द्वारा अपना स्पष्टीकरण समर्पित किया गया।

श्रीमती भुदोलिया से प्राप्त स्पष्टीकरण पर विभागीय पत्रांक-10187, दिनांक 1 दिसम्बर, 2016 तथा पत्रांक-11068, दिनांक 27 दिसम्बर, 2016 द्वारा उपायुक्त, गोड्डा से मंतव्य की माँग की गयी। उक्त के आलोक में उपायुक्त, गोड्डा के पत्रांक-65/गो०, दिनांक 14 जनवरी, 2017 द्वारा मंतव्य उपलब्ध कराया गया।

उपायुक्त, गोड्डा से प्राप्त मंतव्य के आलोक में विभागीय पत्रांक-3009, दिनांक 9 मार्च, 2017 द्वारा ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड से श्रीमती भुदोलिया के स्पष्टीकरण पर मंतव्य की माँग की गयी। ग्रामीण विकास विभाग के पत्रांक-2116, दिनांक 21 जुलाई, 2018 द्वारा मंतव्य उपलब्ध कराया गया, जिसमें उपायुक्त, गोड्डा द्वारा उपलब्ध कराये गये मंतव्य पर सहमति संसूचित की गयी।

श्रीमती भुदोलिया के विरुद्ध प्रतिवेदित आरोप, इनका स्पष्टीकरण एवं उपायुक्त, गोड्डा के मंतव्य तथा ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड के मंतव्य के समीक्षोपरान्त, श्रीमती कंचन कुमारी भुदोलिया, तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, गोड्डा के विरुद्ध उनकी सेवा सम्पुष्टि की अर्हता की तिथि से झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली के नियम-14(i) के तहत "निन्दन" का दण्ड अधिरोपित किया जाता है।

Sr No.	Employee Name G.P.F. No.	Decision of the Competent authority
1	2	3
1	KANCHAN KUMARI BHUDOLIA 110061209621	श्रीमती कंचन कुमारी भुदोलिया, तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, गोड्डा के विरुद्ध "निन्दन" का दण्ड अधिरोपित किया जाता है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

अशोक कुमार खेतान,
सरकार के संयुक्त सचिव।
जीपीएफ संख्या:BHR/BAS/2972
